



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

[सं० 380] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 23, 1981/अग्रहायण 2, 1903
No. 380] NEW DELHI, MONDAY, NOV. 23, 1981/AGRAHAYANA 2, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(अप्रत्यक्ष कर प्रभाग)

अधिसूचना

सं० 253-सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1981

सां०क०नि० 615 (घ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 117-सीमाशुल्क [सां०क०नि० 318 (घ)], तारीख 9 जून 1978 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना में, प्रथम अनुसूची में:—

(क) क्रम संख्यांक 3 के सामने स्तम्भ 2 में, अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्.—

“निलसरोल और निलबरोन” ;

(ख) क्रम संख्यांक 6 के सामने, स्तम्भ 2 में, अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“रुटाइल बालू” ;

(ग) क्रम संख्यांक 13 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3
13-क	गैलेटेन (परिष्कृत)	35.01.07 ;

(घ) क्रम संख्यांक 25 के सामने, स्तम्भ 2 में, “क” और “ख” श्रेणी का” शब्दों और अक्षरों के स्थान पर “क, 2क, 3क, 4क, 5क, 6क, और ख श्रेणी का” शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ङ) क्रम संख्यांक 35 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3
35 क.	प्लेट कांच, फ्लैट कांच और शीट कांच	70.01.016 ;

(च) क्रम संख्यांक 36 के सामने, स्तम्भ 2 में, “जिसके अन्तर्गत कांच ऊन भी है” के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् “जिसके अन्तर्गत कांच ऊन कोमल कैपिलरी कांच नलिका, बल्ब कांच, बोरोसिलिकेट कांच नली भी है।”

[फा० सं० 602/1/81-डी० बी० के०]

जी० आर० शर्मा, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(INDIRECT TAXES DIVISION)

NOTIFICATION

No. 253—Customs

New Delhi, the 23rd November, 1981

G.S.R. 615(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance

(Department of Revenue) No. 117-Customs [GSR 318 (E)], dated the 9th June 1978, namely:—

In the said notification, in the First Schedule,—

- (a) against Serial No. 3, in column 2, the following shall be added at the end, namely:—

“glycerol and glycerine”;

- (b) against Serial No. 6, in column 2, the following shall be added at the end, namely:—

“rutile sand”;

- (c) after Serial No. 13 and the entries relating thereto, the following Serial No. and entries shall be inserted, namely:—

1	2	3
“13A	Gelatin (Refined)	35.01/07”;

- (d) against Serial No. 25, in column 2, for the words and letters “of ‘A’ and ‘B’ Grade”, the words, letters and figures “of A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A and B Grade” shall be substituted;

- (e) after Serial No. 35, and the entries relating thereto, the following Serial No. and entries shall be inserted, namely:—

1	2	3
“35A	Plate glass, flat glass and sheet glass	70.01/016”;

- (f) against Serial No. 36, in column 2, the following shall be added at the end, namely:—

“soft capillary glass tubing, bulb glass, borosilicate glass tubes”.

[F. No. 602/1/81-DBK.]

G. R. SHARMA, Deputy Secy.

